

AT-1308

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)
(Combination—III)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note :—(1) Attempt all **five** questions.

(2) All questions carry equal marks.

- | | |
|---|---|
| 1. (a) Explain the concept and meaning of Bank. | 4 |
| (b) Write the history of Banking. | 4 |
| (c) Explain the function of Debit Card. | 3 |
| (d) State the objectives of Banking Services. | 3 |

OR

- | | |
|---|----|
| (e) Write the importance of E-banking. | 4 |
| (f) Explain the characteristics of Branch Banking System. | 4 |
| (g) Explain the importance of Credit Card. | 3 |
| (h) Discuss the limitations of ATM. | 3 |
| 2. (a) What is meant by Co-operative Bank ? Explain its objective and importance. | 14 |

OR

- | | |
|--|----|
| (b) Explain the role of Regional Rural Bank in Economic development. | 14 |
| 3. (a) State the importance of credit creation of Commercial Bank. | 4 |
| (b) Explain the role of Foreign Bank in Indian economy. | 4 |
| (c) State the meaning of Private Bank. | 3 |
| (d) Write the structure of Commercial Bank. | 3 |

OR

- (e) Explain the role of private bank in Indian Economy. 4
- (f) What do you mean by Foreign Bank ? 4
- (g) Discuss the functions of Commercial Bank. 3
- (h) State the working of Foreign Bank. 3
- 4. (a) Write the brief history of State Bank of India. 4
- (b) Write any five functions of State Bank of India. 4
- (c) Explain the meaning of Monetary Policy. 3
- (d) Explain the objectives of Reserve Bank of India. 3

OR

- (e) Explain the importance of Reserve Bank of India in economic development. 4
- (f) State the organisation of S.B.I. 4
- (g) Explain the objectives of Monetary Policy. 3
- (h) Discuss the objectives of RBI. 3
- 5. (a) Discuss in detail the provisions of Banking Regulation Act, 1949 to regulate Private Banks. 14

OR

- (b) Discuss in detail the powers of RBI to regulate Commercial Banks. 14

AT-1308

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)
(Combination—III)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

- | | |
|--|---|
| 1. (अ) बँकेची संकल्पना व अर्थ स्पष्ट करा. | 4 |
| (ब) अधिकोषनाचा थोडक्यात इतिहास लिहा. | 4 |
| (क) नावे पत्राची (Debit Card) कार्ये स्पष्ट करा. | 3 |
| (ड) 'अधिकोषन सेवेचे उद्देश सांगा. | 3 |

किंवा

- | | |
|---|----|
| (इ) इ-बँकिंग सेवेचे महत्व लिहा. | 4 |
| (फ) शाखा अधिकोषन प्रणालीची विशिष्टते स्पष्ट करा. | 4 |
| (ग) पतपत्राचे (Credit Card) महत्व स्पष्ट करा. | 3 |
| (ह) स्वयंचलित गणक यंत्राच्या (ATM) मर्यादांची चर्चा करा. | 3 |
| 2. (अ) सहकारी अधिकोष म्हणजे काय ? त्याचे उद्देश व महत्व स्पष्ट करा. | 14 |

किंवा

- | | |
|---|----|
| (ब) क्षेत्रीय ग्रामिण अधिकोषाची आर्थिक विकासात भूमिका स्पष्ट करा. | 14 |
| 3. (अ) व्यापारी अधिकोषाच्या प्रत्यय निर्मितीचे महत्व सांगा. | 4 |
| (ब) विदेशी अधिकोषाच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत भूमिका स्पष्ट करा. | 4 |
| (क) खाजगी अधिकोषाचा अर्थ लिहा. | 3 |
| (ड) व्यापारी अधिकोषाची संरचना लिहा. | 3 |

किंवा

UNW—24475

3

Contd.

- (इ) भारतीय अर्थव्यवस्थेत खाजगी अधिकोषाची भूमिका स्पष्ट करा. 4
- (फ) विदेशी अधिकोष यापासुन आपणास काय अर्थबोध होतो ? 4
- (ग) व्यापारी अधिकोषाच्या कार्याची चर्चा करा. 3
- (ह) विदेशी बँकेची कार्यप्रणाली सांगा. 3
4. (अ) भारतीय स्टेट बँकेचा संक्षिप्त इतिहास लिहा. 4
- (ब) स्टेट बँक ऑफ इंडियाची कोणतीही पाच कार्ये लिहा. 4
- (क) मौद्रिक धोरणाचा अर्थ स्पष्ट करा. 3
- (ड) भारतीय रिझर्व बँकेची उद्दिष्टे स्पष्ट करा. 3

किंवा

- (इ) भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे भारताच्या आर्थिक विकासात महत्व स्पष्ट करा. 4
- (फ) स्टेटबँक ऑफ इंडियाचे संघटन सांगा ? 4
- (ग) मौद्रिक धोरणाची उद्दिष्टे स्पष्ट करा. 3
- (ह) भारतीय रिझर्व बँकेच्या उद्देशाची चर्चा करा. 3
5. (अ) खाजगी अधिकोषाची नियमन करण्यासाठी अधिकोष नियमन अधिनियमांतर्गत 1949 उपलब्ध असलेल्या तरतुदीची सविस्तर चर्चा करा. 14

किंवा

- (ब) व्यापारी बँकेचे नियमन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेच्या अधिकारांची सविस्तर चर्चा करा. 14

AT-1308

B.Com. (Part—III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)
(Combination—III)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न हल कीजिए ।

(2) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं ।

- | | |
|---|---|
| 1. (अ) बैंक की संकल्पना एवं अर्थ विशद कीजिए । | 4 |
| (ब) अधिकोषण का इतिहास संक्षेप में लिखिए । | 4 |
| (क) नावे पत्र के कार्यों को विशद कीजिए । | 3 |
| (ड) अधिकोण सेवाओं के उद्देश्य बतलाइये । | 3 |

अथवा

- | | |
|--|----|
| (इ) इ-बैंकिंग सेवाओं का महत्व लिखिये । | 4 |
| (फ) शाखा बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएं विशद कीजिए । | 4 |
| (ग) पतपत्र के महत्वों को विशद कीजिए । | 3 |
| (ह) स्वयंचलित गणक यंत्र (ATM) की मर्यादाओं की चर्चा कीजिए । | 3 |
| 2. (अ) सहकारी बैंक याने क्या ? उसके उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिये । | 14 |

अथवा

- | | |
|---|----|
| (ब) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आर्थिक विकास में भूमिका विशद कीजिये । | 14 |
| 3. (अ) व्यापारी बैंक की साख (credit) निर्माण का महत्व बतलाइये । | 4 |
| (ब) विदेशी बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका विशद कीजिए । | 4 |
| (क) निजी बैंक का अर्थ बतलाइये । | 3 |
| (ड) व्यापारी बैंक की संरचना लिखिए । | 3 |

अथवा

UNW—24475

5

Contd.

- (इ) भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी बैंक की भूमिका विशद कीजिये । 4
- (फ) विदेशी बैंक से आपको क्या अर्थबोध होता है ? 4
- (ग) व्यापारी बैंक को कार्यों की चर्चा कीजिये । 3
- (ह) विदेशी बैंक की कार्यप्रणाली को बतलाइये । 3
4. (अ) भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास संक्षेप में लिखिए । 4
- (ब) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किन्हीं पांच कार्यों को लिखिए । 4
- (क) मुद्रा नीति का अर्थ विशद कीजिए । 3
- (ड) भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य विशद कीजिए । 3

अथवा

- (इ) भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत के आर्थिक विकास में महत्व स्पष्ट कीजिए । 4
- (फ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संगठन को लिखिये । 4
- (ग) मौद्रिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए । 3
- (ह) भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए । 3
5. (अ) निजी बैंक के नियमन करने हेतु बैंक नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों की विस्तार से चर्चा कीजिए । 14

अथवा

- (ब) व्यापारी बैंक के नियमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए । 14